



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3962]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/अग्रहायण 18, 1941

No. 3962]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4407(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1506 (अ) तारीख 22.03.2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 02.04.2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिशा राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

**जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट
भुवनेश्वर से आरटी-पुरी पाइपलाइन
अनुसूची**

राज्य - ओडिशा

जिला	तहसील	मौजा	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	5	6		
पुरी	साक्षीगोपाल	बलरामपुरगड़	904	00	00	51
			895	00	17	46
			896	00	00	04
			885	00	10	59
			897	00	01	32
			884	00	06	85
			883	00	06	75
			876	00	06	17
			877	00	01	55
			868	00	11	34
			867	00	03	80
			866	00	11	16
			864	00	01	45
			865	00	12	30
			845	00	19	92
			863	00	00	21
			840	00	15	24
			838	00	01	18
			837	00	06	08
			836	00	02	15
			835	00	01	05
			834	00	05	94
			833	00	00	44
			832	00	02	01
			831	00	10	28
			1704	00	10	33
			4005	00	00	92
			1702	00	02	48
			1700	00	04	67
			1699	00	09	40
			1698	00	00	93
			1753	00	04	37
			1755	00	03	69
			1757	00	03	88
			1756	00	01	85
			1762	00	14	36
			1764	00	00	22

			1763	00	03	19
			1751	00	05	52
			1891	00	01	28
			4014	00	02	94
			1887	00	05	88
			4002	00	03	60
			1886	00	01	74
			1879	00	07	41
			1882	00	06	92
			1878	00	22	87
			1876	00	02	15
			1906	00	00	96
			1932	00	05	29
			1933	00	09	12
			1873	00	02	09
			1863	00	08	87
			1862	00	00	42
			1861	00	10	41
			1860	00	00	75
			1859	00	05	84
			1943	00	01	14
			1954	00	03	21
			1956	00	10	30
			1957	00	02	07
			2144	00	00	49
			2140	00	11	10
			2150	00	00	56
			2151	00	10	73
			2156	00	09	11
			2155	00	08	35
			2220	00	02	14
			2132	00	02	21
			2118	00	17	31
			2121	00	01	24
			2400	00	01	09
			2401	00	09	55
			2402	00	01	08
			2403	00	00	95
			2404	00	01	60
			2427	00	00	13
पुरी	साक्षीगोपाल	गुआलीगोरड़ा	229	00	00	00
			230	00	03	27
			231	00	03	93
			233	00	12	27

			234	00	00	25
			239	00	06	62
			238	00	00	04
			242	00	13	95
			244	00	12	14
			246	00	16	59
			544	00	00	85
			545	00	02	89
			547	00	03	05
			546	00	01	43
			549	00	02	62
			550	00	03	27
			542	00	04	82
			551	00	01	26
			558	00	00	74
			559	00	11	49
			565	00	00	46
			627	00	08	01
			625	00	00	09
			626	00	08	52
			638	00	13	74
			648	00	00	80
			624	00	00	05
			623	00	16	57
			649	00	00	87
			650	00	00	23
			622	00	11	83
			664	00	08	33
			621	00	00	63
			620	00	00	22
			618	00	06	31
			617	00	00	76
			616	00	06	27
			615	00	05	00
पुरी	साक्षीगोपाल	बिदयाधरपुर	1623	00	12	00
			1625	00	06	85
			1645	00	00	56
			1660	00	08	70
			1659	00	06	22
			1664	00	10	37
			1665	00	03	91
			1666	00	17	72
			1658	00	01	29
			1994	00	03	76

			1667	00	15	22
			1846	00	00	76
			1892	00	10	21
			1891	00	00	16
			1890	00	00	25
			1894	00	00	30
			1896	00	01	51
			1897	00	02	58
			1898	00	05	01
			1899	00	02	81
			1900	00	02	92
			1902	00	11	12
			1901	00	01	79
			1904	00	04	80
			1908	00	00	65
			1906	00	01	83
			1907	00	04	38
			1969	00	00	37
			1909	00	03	43
			1910	00	07	62
			1911	00	08	34
			1578	00	02	58
			1577	00	17	12
			1989	00	13	82
			1988	00	05	51
			1987	00	04	48
			1916	00	05	34
			1574	00	09	57
			1962	00	19	46
पुरी	साक्षीगोपाल	बीजीपुर	330	00	07	14
			328	00	04	48
			327	00	02	69
			624	00	00	72
			625	00	00	58
			670	00	01	17
			669	00	11	92
			664	00	03	25
			657	00	01	92
			673	00	02	88
			674	00	15	97
			656	00	00	39
			1149	00	09	40
			678	00	05	30
			677	00	00	55

			686	00	05	03
			680	00	17	96
			681	00	10	10
			679	00	00	32
			651	00	01	74
			639	00	00	55
			771	00	01	09
			770	00	06	71
			769	00	01	28
			772	00	06	06
			774	00	07	64
			775	00	06	21
			633	00	01	94
			630	00	09	40
पुरी	साक्षीगोपाल	परजापड़ा	10	00	00	55
			12	00	10	84
			13	00	00	65
			14	00	11	04
			16	00	03	05
			17	00	04	71
			18	00	03	17
			19	00	06	21
			6	00	00	48
			21	00	01	97
			20	00	01	11
			73	00	08	10
			72	00	03	87
			70	00	11	75
			69	00	01	87
			68	00	20	74
			65	00	09	26
			61	00	02	68
			62	00	03	12
			64	00	01	83
			63	00	04	68
			1024	00	01	45
			945	00	05	57
			943	00	11	67
			942	00	15	49
			940	00	02	64
			941	00	10	63
			926	00	16	19
			923	00	01	81
			925	00	10	00

			1173	00	05	99
			1174	00	05	11
			1175	00	03	51
			1231	00	00	28
			1209	00	00	84
			1220	00	08	66
			1219	00	00	03
			1218	00	09	33
			1224	00	09	72
पुरी	साक्षीगोपाल	चक्रपड़ा	27	00	04	34
			26	00	06	46
			28	00	00	50
			107	00	03	80
			108	00	01	27
			105	00	08	24
			106	00	00	51
			604	00	00	36
			605	00	09	31
			101	00	02	49
			610	00	09	94
			609	00	00	18
			102	00	05	10
			96	00	00	12
			118	00	01	26
			129	00	00	28
			130	00	07	64
			131	00	07	08
			132	00	00	02
			133	00	00	91
			611	00	07	93
			136	00	00	37
			134	00	02	50
			144	00	03	55
			135	00	01	23
			137	00	00	71
			143	00	23	26
			138	00	00	07
			139	00	09	10
			140	00	01	90
			566	00	12	60
			565	00	00	02
			567	00	17	09
			568	00	08	11
			572	00	03	76

			573	00	04	99
			571	00	11	11
			574	00	11	20
			575	00	05	41
			576	00	00	27
पुरी	साक्षीगोपाल	सुआंलो	14	00	03	31
			15	00	12	25
			25	00	10	10
			27	00	01	15
			26	00	14	46
			28	00	05	84
			40	00	06	33
			41	00	01	81
			42	00	02	23
			43	00	01	96
			36	00	10	90
			1324	00	04	50
			178	00	05	70
			182	00	10	51
			186	00	02	34
			187	00	09	54
			188	00	00	10
			305	00	02	80
			327	00	17	81
			328	00	00	85
			335	00	07	35
			344	00	09	99
			343	00	03	84
			349	00	08	50
			394	00	00	06
			408	00	11	30
			407	00	05	94
			395	00	00	02
			401	00	00	59
			402	00	09	00
			406	00	00	48
			403	00	00	59
			426	00	00	52
			419	00	13	52
			449	00	00	30
			450	00	18	77
			453	00	08	86
			452	00	00	12
			456	00	02	67

पुरी	साक्षीगोपाल	पाटकणा	1	00	01	54
			12	00	02	17
			13	00	05	12
			14	00	09	60
			15	00	04	00
			28	00	25	34
			23	00	01	99
			116	00	01	85
			117	00	01	23
			165	00	03	28
			164	00	02	66
			166	00	22	16
			167	00	14	28
			168	00	03	37
			259	00	00	56
			258	00	02	13
			169	00	07	12
			170	00	13	80
			175	00	09	27
			176	00	04	60
			225	00	06	87

[फा. सं. एल-14014 / 31 / 2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2019

S.O. 4407(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1506 (E) dated 22.03.2019 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 02.04.2019, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur—Haldia & Bokaro-Dhamra pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO -DHAMRA GAS PIPELINE PROJECT BHUBANESHWAR TO RT-PURI PIPELINE SCHEDULE				
State : ODISHA				
DISTRICT	TAHASIL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA
				HECT.- ARE - SQ. MTR.
1	2	3	5	6
PURI	SAKSHIGOPAL	BALARAMPURGAR	904	00 00 51
			895	00 17 46
			896	00 00 04
			885	00 10 59
			897	00 01 32
			884	00 06 85
			883	00 06 75
			876	00 06 17
			877	00 01 55
			868	00 11 34
			867	00 03 80
			866	00 11 16
			864	00 01 45
			865	00 12 30
			845	00 19 92
			863	00 00 21
			840	00 15 24
			838	00 01 18
			837	00 06 08
			836	00 02 15
			835	00 01 05
			834	00 05 94
			833	00 00 44
			832	00 02 01
			831	00 10 28
			1704	00 10 33
			4005	00 00 92
			1702	00 02 48
			1700	00 04 67
			1699	00 09 40
			1698	00 00 93
			1753	00 04 37
			1755	00 03 69
			1757	00 03 88
			1756	00 01 85
			1762	00 14 36
			1764	00 00 22
			1763	00 03 19

			1751	00	05	52
			1891	00	01	28
			4014	00	02	94
			1887	00	05	88
			4002	00	03	60
			1886	00	01	74
			1879	00	07	41
			1882	00	06	92
			1878	00	22	87
			1876	00	02	15
			1906	00	00	96
			1932	00	05	29
			1933	00	09	12
			1873	00	02	09
			1863	00	08	87
			1862	00	00	42
			1861	00	10	41
			1860	00	00	75
			1859	00	05	84
			1943	00	01	14
			1954	00	03	21
			1956	00	10	30
			1957	00	02	07
			2144	00	00	49
			2140	00	11	10
			2150	00	00	56
			2151	00	10	73
			2156	00	09	11
			2155	00	08	35
			2220	00	02	14
			2132	00	02	21
			2118	00	17	31
			2121	00	01	24
			2400	00	01	09
			2401	00	09	55
			2402	00	01	08
			2403	00	00	95
			2404	00	01	60
			2427	00	00	13
PURI	SAKSHIGOPAL	GUALIGORARA	229	00	00	00
			230	00	03	27
			231	00	03	93
			233	00	12	27
			234	00	00	25
			239	00	06	62
			238	00	00	04

			242	00	13	95
			244	00	12	14
			246	00	16	59
			544	00	00	85
			545	00	02	89
			547	00	03	05
			546	00	01	43
			549	00	02	62
			550	00	03	27
			542	00	04	82
			551	00	01	26
			558	00	00	74
			559	00	11	49
			565	00	00	46
			627	00	08	01
			625	00	00	09
			626	00	08	52
			638	00	13	74
			648	00	00	80
			624	00	00	05
			623	00	16	57
			649	00	00	87
			650	00	00	23
			622	00	11	83
			664	00	08	33
			621	00	00	63
			620	00	00	22
			618	00	06	31
			617	00	00	76
			616	00	06	27
			615	00	05	00
PURI	SAKSHIGOPAL	BIDYADHARPUR	1623	00	12	00
			1625	00	06	85
			1645	00	00	56
			1660	00	08	70
			1659	00	06	22
			1664	00	10	37
			1665	00	03	91
			1666	00	17	72
			1658	00	01	29
			1994	00	03	76
			1667	00	15	22
			1846	00	00	76
			1892	00	10	21
			1891	00	00	16
			1890	00	00	25

			1894	00	00	30
			1896	00	01	51
			1897	00	02	58
			1898	00	05	01
			1899	00	02	81
			1900	00	02	92
			1902	00	11	12
			1901	00	01	79
			1904	00	04	80
			1908	00	00	65
			1906	00	01	83
			1907	00	04	38
			1969	00	00	37
			1909	00	03	43
			1910	00	07	62
			1911	00	08	34
			1578	00	02	58
			1577	00	17	12
			1989	00	13	82
			1988	00	05	51
			1987	00	04	48
			1916	00	05	34
			1574	00	09	57
			1962	00	19	46
PURI	SAKSHIGOPAL	BIJPUR	330	00	07	14
			328	00	04	48
			327	00	02	69
			624	00	00	72
			625	00	00	58
			670	00	01	17
			669	00	11	92
			664	00	03	25
			657	00	01	92
			673	00	02	88
			674	00	15	97
			656	00	00	39
			1149	00	09	40
			678	00	05	30
			677	00	00	55
			686	00	05	03
			680	00	17	96
			681	00	10	10
			679	00	00	32
			651	00	01	74
			639	00	00	55
			771	00	01	09

			770	00	06	71
			769	00	01	28
			772	00	06	06
			774	00	07	64
			775	00	06	21
			633	00	01	94
			630	00	09	40
PURI	SAKSHIGOPAL	PARAJAPARA	10	00	00	55
			12	00	10	84
			13	00	00	65
			14	00	11	04
			16	00	03	05
			17	00	04	71
			18	00	03	17
			19	00	06	21
			6	00	00	48
			21	00	01	97
			20	00	01	11
			73	00	08	10
			72	00	03	87
			70	00	11	75
			69	00	01	87
			68	00	20	74
			65	00	09	26
			61	00	02	68
			62	00	03	12
			64	00	01	83
			63	00	04	68
			1024	00	01	45
			945	00	05	57
			943	00	11	67
			942	00	15	49
			940	00	02	64
			941	00	10	63
			926	00	16	19
			923	00	01	81
			925	00	10	00
			1173	00	05	99
			1174	00	05	11
			1175	00	03	51
			1231	00	00	28
			1209	00	00	84
			1220	00	08	66
			1219	00	00	03
			1218	00	09	33
			1224	00	09	72

PURI	SAKSHIGOPAL	CHAKRAPARA	27	00	04	34
			26	00	06	46
			28	00	00	50
			107	00	03	80
			108	00	01	27
			105	00	08	24
			106	00	00	51
			604	00	00	36
			605	00	09	31
			101	00	02	49
			610	00	09	94
			609	00	00	18
			102	00	05	10
			96	00	00	12
			118	00	01	26
			129	00	00	28
			130	00	07	64
			131	00	07	08
			132	00	00	02
			133	00	00	91
			611	00	07	93
			136	00	00	37
			134	00	02	50
			144	00	03	55
			135	00	01	23
			137	00	00	71
			143	00	23	26
			138	00	00	07
			139	00	09	10
			140	00	01	90
			566	00	12	60
			565	00	00	02
			567	00	17	09
			568	00	08	11
			572	00	03	76
			573	00	04	99
			571	00	11	11
			574	00	11	20
			575	00	05	41
			576	00	00	27
PURI	SAKSHIGOPAL	SUANLO	14	00	03	31
			15	00	12	25
			25	00	10	10
			27	00	01	15
			26	00	14	46
			28	00	05	84

			40	00	06	33
			41	00	01	81
			42	00	02	23
			43	00	01	96
			36	00	10	90
			1324	00	04	50
			178	00	05	70
			182	00	10	51
			186	00	02	34
			187	00	09	54
			188	00	00	10
			305	00	02	80
			327	00	17	81
			328	00	00	85
			335	00	07	35
			344	00	09	99
			343	00	03	84
			349	00	08	50
			394	00	00	06
			408	00	11	30
			407	00	05	94
			395	00	00	02
			401	00	00	59
			402	00	09	00
			406	00	00	48
			403	00	00	59
			426	00	00	52
			419	00	13	52
			449	00	00	30
			450	00	18	77
			453	00	08	86
			452	00	00	12
			456	00	02	67
PURI	SAKSHIGOPAL	PATKANA	1	00	01	54
			12	00	02	17
			13	00	05	12
			14	00	09	60
			15	00	04	00
			28	00	25	34
			23	00	01	99
			116	00	01	85
			117	00	01	23
			165	00	03	28
			164	00	02	66
			166	00	22	16
			167	00	14	28

	168	00	03	37
	259	00	00	56
	258	00	02	13
	169	00	07	12
	170	00	13	80
	175	00	09	27
	176	00	04	60
	225	00	06	87

[F. No. L-14014/31 /2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.